



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 105]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 1979/चैत्र 12, 1901

No. 105]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 1979/CHAITRA 12, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विप्रेषण संचालक

अधिमूर्चना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1979

अनुसूची—1

[नियम 3 देखें]

कौमली शुल्क की सारणी

वे मामले जिन पर शुल्क लगाया जा सकता है

शुल्क की राशि

सा० का० वि० 326(ख).—राजनयिक एवं कौमली अधिकारी (गपथ एवं शुल्क) अधिनियम 1948 (1948 का 41) की धारा 8 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इसके द्वारा, राजनयिक एवं कौमली अधिकारी (शुल्क नियमावली, 1949 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:—

(1) ये नियम राजनयिक एवं कौमली अधिकारी (शुल्क) संशोधन नियम 1979 कहलायेंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो जायेंगे।

2. राजनयिक एवं कौमली अधिकारी (शुल्क) नियम, 1948 में वर्तमान अनुसूची-1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाए, यथा:—

भाग-I

व्यापारिक नौबहत के संबंध में लिया जाने

वाला शुल्क

1. जहाजों की रजिस्ट्री, हस्तांतरण और प्रेषण, जहाजों में हित, या जहाजों पर बंधकों के उद्देश्य से व्यापारिक नौपरिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अंतर्गत ली गयी या रिकार्ड की गई प्रत्येक घोषणा के लिए

105.00 70.00

1	2	3
	₹०	₹०
2. प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्री के बाद मास्टर को बदलने से सम्बन्ध प्राप्त को पृष्ठांकित करने और यदि अपेक्षित हो तो कर्मियों के साथ कगार पर आने हस्ताक्षर करने के लिए	60.00	40.00
3. रजिस्ट्री का अन्तरिम प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए (इस शुल्क में घोषणा पर शुल्क शामिल नहीं है)	390.00	260.00
4. जहाज के बंधक अथवा जहाज के शेयर को रिकार्ड करने के लिए	390.00	260.00
5. जहाज के बंधक या जहाज के शेयरों के हस्तांतरण को रिकार्ड करने के लिए	390.00	260.00
6. जहाज के बंधक या जहाज के शेयरों की समाप्ति को रिकार्ड करने के लिए	390.00	260.00
7. कौमर्सी अधिकारी के सामने की गई जहाज की या जहाज के शेयरों की प्रत्येक विक्री के लिए	390.00	260.00
8. जहाज में कार्य-विवरण की रजिस्टर पुस्तिका से उद्धरण की प्रमाणित प्रति के लिए, यदि यह 100 शब्दों से अधिक न हो	45.00	30.00
बाद के प्रत्येक 100 शब्दों के लिए	24.00	16.00
9. कौमर्सी अधिकारी के सामने काम पर लगाए गए प्रत्येक नाविक के लिए	30.00	20.00
10. कौमर्सी अधिकारी के समक्ष नाविकों के साथ किए गए कगारों में प्रत्येक परिवर्तन के लिए	30.00	20.00
11. कौमर्सी अधिकारी की संस्वीकृति से हटाये गये या पीछे छोड़े गये प्रत्येक नाविक के लिए	30.00	20.00
12. कौमर्सी अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रत्येक परिवर्तन के लिए	30.00	20.00
13. जहाज में मवार किसी व्यक्ति के जन्म अथवा मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए और उनके संबंध में जहाज के करार को पृष्ठांकित करने के लिए	30.00	20.00
14. नाविक के असीयतनाम के कार्यान्वयन को स्थापित करने के लिए	30.00	20.00
15. मृतक नाविक के वेतन आदि के बावों के फार्मों के प्रमाणीकरण के लिए	15.00	10.00
16. रमद अथवा पानी की जाँच के लिए जो उस पार्टी को सर्वेक्षण की कीमत के प्रतिरिक्त देनी होगी जिससे चुका हो गई हो	180.00	120.00
17. व्यापारिक नौवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) के अनुपानन में बर्बाद गई सम्पत्ति के मास्टर या मालिक द्वारा दिये जाने वाले प्रत्येक निस्तारण बांड के लिए	600.00	400.00

1	2	3
	₹०	₹०
18. जहाज के प्रलेखों की अभिरक्षा उन पर पृष्ठांकन करने और व्यापारिक नौवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) द्वारा अपेक्षित प्रमाण-पत्र देने के लिए इस शुल्क में जहाज के प्रलेखों का निरीक्षण शुल्क भी शामिल है।	45.00	30.00
19. ममुद्री विरोध-पत्र लिखने और यदि अपेक्षित हो, तो एक प्रमाणित प्रति भेजने के लिए	105.00	70.00
प्रत्येक प्रतिरिक्त प्रति के लिए	45.00	30.00
20. सर्वेक्षण के अनुरोध-पत्र को फाइल करने और सर्वेक्षण के आदेश जारी करने के लिए	180.00	120.00
21. सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने, अधिलेखा-गारों में मूल प्रति फाइल करने (यदि 200 शब्दों से अधिक न हो) और यदि अपेक्षित हो, तो अनुरोध-पत्र की एक प्रमाणित प्रति, आदेश और सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए	390.00	260.00
22. मालपोत अथवा यात्री पोत के साधारण साप्ताहिक सर्वेक्षण के लिए	5.00	3.00
(क) 5,000 कुल रजिस्टर टन से कम मालपोत, प्रति कुल रजिस्टर टन उक्त राशि के प्रतिरिक्त 5,000 कुल रजिस्टर टन से अधिक मालपोत, 5,000 के अधिक प्रत्येक 1,000 टन या उसके कुछ भाग के लिए	945.00	630.00
(ख) 5,000 कुल रजिस्टर टन से कम यात्री पोत, प्रत्येक कुल रजिस्टर टन के लिए	5.00	3.00
उक्त राशि के प्रतिरिक्त 5,000 रजिस्टर टन से अधिक यात्री पोत, प्रत्येक 1,000 टन या उपरोक्त 5,000 टन के कुल भाग के लिए	945.00	630.00
नोट-1. धारा (क) और (ख) के अंतर्गत लगाये जाने वाले शुल्क की राशि श्रेणी "क)" के देशों में 18900 रुपये और श्रेणी (ख) के देशों में 10600 रुपये से अधिक नहीं होगी		
नोट-2. मालपोत या यात्रीपोत के विशेष सर्वेक्षण के लिए लिया जाने वाला शुल्क की गयी सेवाओं के स्वरूप और सीमा के अनुरूप होगा।		
नोट-3. उक्त शुल्क में ममुद्री, योग्यता के प्रमाणपत्र या यात्री प्रमाण-पत्र प्रदान करने या नवीकृत करने का शुल्क शामिल है परन्तु समयोपरि प्रभार या यात्रा खर्च शामिल नहीं है।		

1	2	3	4	1	2	3	4
23.	समूची विरोध-पत्र देने, यदि 200 शब्दों से अधिक नहीं है, मूल प्रति फाइल करने और यदि अपेक्षित हो तो एक प्रमाणित प्रति भेजने के लिए। इसमें शपथ या घोषणाओं या यदि अपेक्षित हो तो विरोध-पत्र की रूपरेखा तैयार कराने के लिए शुल्क शामिल नहीं है	390.00	260.00		प्रत्येक नाविक के लिए, यदि एक से अधिक व्यक्ति सम्बंध हैं	24.00	16.00
24.	किसी अन्य विरोध पत्र के लिए (वित्तियम बिल के अतिरिक्त) यदि यह 200 शब्दों से अधिक नहीं है, मूल प्रति फाइल करने और यदि अपेक्षित हो तो एक प्रमाणित प्रति भेजने के लिये इसमें विरोध पत्र यदि अपेक्षित हो, तो रूपरेखा तैयार कराने का शुल्क शामिल नहीं है	390.00	260.00	34.	वही, नाविक की रिहाई के लिए प्रत्येक नाविक के लिए, यदि एक से अधिक व्यक्ति संबंधित हैं	75.00	50.00
25.	यदि विरोध पत्र या सर्वेक्षण की रिपोर्ट 200 शब्दों से अधिक हो तो प्रत्येक अतिरिक्त 100 शब्दों अथवा उसके कुछ अंश के लिए	45.00	30.00	35.	पोत के कर्मियों की संख्या के संबंध में अथवा जहाज में प्रवेश को अनुमति और निकासी की अनुमति के लिए स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित किसी अन्य मामले के लिए प्रदान किये गये प्रत्येक प्रमाण-पत्र के लिए	105.00	70.00
26.	साधारण बांड, पोत बंधक बांड अथवा विवाचन बांड की प्रत्येक प्रति सत्यापित करने के लिए	105.00	70.00	36.	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित हाजिरी रजिस्टर या बिस्तृत सूची को जिसमें पोत के कर्मियों के प्रत्येक सदस्य का नाम आदि दिया गया हो स्वच्छ तथा भाषा में तैयार करने के लिए	45.00	30.00
27.	किसी विदेशी बन्दरगाह पर भारतीय पोत के कर्मियों के साथ करार की नई शर्तों के संबंध में नया करार करने के लिये, और उसकी प्रति देने के लिए जो कि व्यापारिक नौवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की अपेक्षाओं के अनुसार कर्मियों की पड़ोश के अंदर होनी चाहिये			37.	यदि अपेक्षित हो जहाज की माल सूची पर कौंसल की मोहर लगाने और हस्ताक्षर कराने के लिए	105.00	70.00
	श्रेणी "क" के वेशों में प्रत्येक नाविक के लिए 10 रुपये कम से कम 150 रु० सहित और श्रेणी 'ख' के वेशों में प्रत्येक नाविक के लिए 7 रुपये, कम से कम 105 रुपये सहित और अधिक से अधिक	390.00	260.00	38.	भारतीय पोत की सरकारी लॉग-बुक में किसी प्रविष्टि पर कौंसल की मोहर लगाने और हस्ताक्षर करने के लिए, यदि इस प्रकार की प्रविष्टि व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) में अपेक्षित नहीं है	75.00	50.00
28.	स्वास्थ्य बिल	150.00	100.00	39.	जहाज या जहाज के शेरों के बिक्री बिल के कार्यान्वयन को सत्यापित करने के लिए	105.00	70.00
29.	विदेशी स्वास्थ्य बिल को प्रमाणित करने के लिए	150.00	100.00	40.	विदेशी पोत में नाविक की नियुक्ति के पहले विदेशी प्राधिकारियों द्वारा कौंसली अधिकारी से अपेक्षित किसी प्रलेख के लिए जिसमें अधिकारी की मोहर लगाना और हस्ताक्षर करना भी शामिल है	30.00	20.00
30.	पारेक्षित माल की पुष्टि में मूल या अन्य प्रलेखों के प्रमाण-पत्र का जारी करना अथवा सत्यापन, प्रत्येक प्रलेख प्रलेख के लिए और प्रत्येक फाइल करने के लिए	45.00	30.00	41.	विदेशी पोत के मास्टर द्वारा व्यापारिक नौवहन अधिनियम 1959 (1958 का 44) के अधीन लस्कर नाविक की नियुक्ति अथवा सेवामुक्ति, अथवा उसके पोछे छोड़ा जाने, अथवा करार में किसी परिवर्तन को प्रमाणित करने, अथवा ऐसे किसी नाविक की मृत्यु अथवा उसके द्वारा उसमें पोत के परित्याग को प्रमाणित करने के लिए	30.00	20.00
31.	प्रत्येक अतिरिक्त प्रति के लिए, यदि कौंसली अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो और मोहर लगायी गयी हो	45.00	30.00	42.	एक या एक से अधिक लस्कर नाविक के उनके अनुबंधों के साथ एक विदेशी जहाज से दूसरे विदेशी जहाज में स्थानान्तरण को सत्यापित करने के लिए, प्रति नाविक	60.00	40.00
32.	भारतीय बन्दरगाह से निर्यात किये गये माल का देय उत्तराई प्रमाण-पत्र	105.00	70.00		टिप्पणी :— इस मद के अन्तर्गत शुल्क मद 41 के अंतर्गत शुल्क में शामिल है और यह अतिरिक्त शुल्क नहीं है और		
33.	नाविक की गिरफ्तारी या कारावास के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को संबोधित आवेदन के लिए, यदि पोत के मास्टर के अनुरोध के अनुपालन में स्वीकृत किया गया हो						

1	2	3	4	1	2	3	4
	यह शुल्क दो संबद्ध जहाजों में बराबर-बराबर बांटा जाना चाहिए अतः दो जहाजों से लिया गया अधिकतम शुल्क श्रेणी "क" के देशों में 1500/- रु० और श्रेणी "ख" के देशों में 1000/- रु० से अधिक नहीं होना चाहिये।			50. सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने के लिए पेटेंट डिजाइन तथा मार्क की प्रति और यह पृष्ठांकित करने के लिए कि संबद्ध पेटेंट, डिजाइन अथवा मार्क को इस प्रकार प्रदर्शित कर दिया गया है	240.00	160.00	
43. जहाज के वस्तावेजों के निरीक्षण के लिए जब उन्हें प्रस्तुत करना अपेक्षित हो ताकि कौंसली अधिकारी जहाज की ओर से कोई विशिष्ट कार्य कर सकें		45.00	30.00	51. कौंसली अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत मुस्तारनामे के प्रत्येक निष्पादन के लिए	75.00	50.00	
नोट :—जहाज के वस्तावेजों आदि की अभिरक्षा के लिए मर 18 के अंतर्गत लिए जाने वाले शुल्क के अतिरिक्त यह शुल्क तब तक नहीं लिया जाए जब तक कि बीच में कौंसली कार्यालय से यह करार वापिस न ले लिया गया हो।				नोट : जब चार से अधिक व्यक्ति एक ही समय पर किसी मुस्तारनामे का निष्पादन करें, तो श्रेणी "क" के देशों में केवल 300 रु० तथा श्रेणी "ख" के देशों में केवल 200 रु० का शुल्क लिया जाएगा।			
भाग II—				52. किसी ऐसे व्यक्ति की वसीयत के निष्पादन का साक्षात्कृत करने के लिए जो भारतीय नागरिक न हो	105.00	70.00	
अथ्य सेवाएं, जिनका किया जाना एक कौंसली अधिकारी द्वारा अपेक्षित है, के संबंध में लिया जाने वाला शुल्क।				53. सरकारी बेगन अथवा पेंशन संबंधी त्रिमाही अथवा मासिक घोषणा पत्रों पर, यदि कौंसली अधिकारी की मोहूर लगाने और हस्ताक्षर करने के लिए	5.00	5.00	
44. ऐसा प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिए जिसकी अथ्यथा व्यवस्था न की गई हो, यदि वह 100 शब्दों से अधिक न हो जिसमें —के लिए आहरण का शुल्क शामिल नहीं है		105.00	70.00	नोट : थल सेना, नौ सेना वायु सेना अथवा व्यापारिक नौवहन सेवा के कामियों अथवा उनकी विधवाओं अथवा उत्तराधिकारियों के कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और कौंसली अधिकारी के हस्ताक्षर के पास "निःशुल्क" शब्द लिखा जाएगा। जिन व्यक्तियों को सिविल पेंशन अथवा सेवा-निवृत्ति वेतन मिल रहा हो, उन्हें शुल्क में छूट नहीं दी जाएगी।			
यदि 100 शब्दों से अधिक हो, तो प्रत्येक अतिरिक्त 100 शब्दों अथवा उसके अंश के लिए		45.00	30.00	54. अस्तित्व संबंधी किसी अथ्य घोषणा पर कौंसली अधिकारी की मोहूर लगाने तथा हस्ताक्षर कराने के लिए	24.00	16.00	
45. ऐसी घोषणा प्राप्त करने के लिए जिसमें शेरों आदि पर आय कर से छूट अथवा धन की वापसी का दावा किया गया हो		24.00	16.09	नोट : जीवन संबंधी प्रमाण-पत्रों तथा हर छठे महीने जंगलियों के निशानों के संबंध में हस्ताक्षर के लिए और उन पर मोहूर लगाने के बारे में बसीकदारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ऐसे मामलों में कौंसली अधिकारी के हस्ताक्षर के पास "निःशुल्क" शब्द लिखा जाएगा।			
46. शपथ पत्र अथवा घोषणा में उल्लिखित प्रवर्ण कौंसली अधिकारी के प्रत्येक हस्ताक्षर के लिए		24.00	16.00	55. अस्तित्व संबंधी अथ्य कोई घोषणा पर कौंसली अधिकारी के हस्ताक्षर के लिए यदि ऐसी घोषणा कौंसली अधिकारी ने तैयार की है	45.00	30.00	
47. किसी ऐसे वस्तावेज पर जिसे कौंसली अधिकारी ने तैयार न किया हो, के संबंध में की गई प्रत्येक फेर बदल अथवा पंक्तियों के बीच लिखे पर आधुनिक करने के लिए		5.00	3.00				
48. किसी कौंसली अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत शेरों अथवा स्टाक के हस्तांतरण के लिए प्रत्येक हस्ताक्षर के संबंध में।		45.00	30.00				
49. किसी कौंसली अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत शेरों अथवा स्टाक के नियंत्रण के बारे में प्रत्येक हस्ताक्षर के लिए जब कि वह सम्बद्ध कौंसली अधिकारों के आलावा एक अथवा एक से अधिक गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया हो।		75.00	50.00				

1	2	3	4	1	2	3	4
56. किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए प्रमाण-पत्र . . . . .	75.00	50.00		63. किसी भारतीय नागरिक की बसोयत को खोलने के लिए जो नाविक न हो जिसमें कार्यवाही के कार्यभार पर कौंसली हस्ताक्षर भी शामिल है . . . . .	300.00	200.00	
नोट : यदि कौंसली अधिकारी आवेदक को व्यक्तिगत तौर पर न जानता हो तो वह पहचान के संबंध में संतोषजनक साक्ष्य की मांग कर सकता है और तब तक इस संबंध में प्रमाणपत्र देने से इंकार कर सकता है जब तक कि ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता क्योंकि प्रमाण देने का दायित्व आवेदक का होता है।				64. किसी कौंसली अधिकारी के समक्ष प्रत्येक शपथ पत्र अथवा प्रतिज्ञात शपथ पत्र के लिए . . . . .	45.00	30.00	
57. आवास के लिए अनुज्ञा पत्र देने के लिए किसी विदेशी प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई दस्तावेज जारी करने के लिए . . . . .	24.00	16.00		65. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 382 के अधीन बिग गए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए— (क) ऐसी परिसम्पत्ति के मामले में जिस का मूल्य 10,000 रु० से अधिक न हो . . . . .	90.00	60.00	
58. भारत में रुपया भेजने संबंधी सुविधाएं देने के लिए किसी विदेशी प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित प्रमाण-पत्र के साक्ष्यांकन के लिए . . . . .	5.00	5.00		(ख) ऐसी परिसम्पत्ति के मामले में जिस का मूल्य 10,000 रु० से अधिक हो तो प्रत्येक 10,000 रु० अथवा उसके किसी भाग के लिए . . . . .	75.00	50.00	
59. किसी विदेशी प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साक्ष्यांकन के लिए . . . . .	75.00	50.00		66. कौंसली अधिकारी के निवास के देश में किसी ऐसे भारतीय की सम्पत्ति के संबंध अथवा बंटवारे या दोनों के लिए जो नाविक न हो और बिना बसोयत के मार गया हो अथवा बसोयत की भी हो तो उस के कानूनी रूप से सक्षम प्रतिनिधि जो वहां न हों . . . . .	अनुमानित	मूल्य का 2½ प्रतिशत	
60. किसी व्यक्ति का प्रमाणपत्र पर अर्हता प्राप्त दो विदेशी व्यक्तिओं के हस्ताक्षरों के साक्ष्यांकन के लिए जो उन्होंने अनु-पूरक नियम के नियम 256 में निर्धारित फार्म में जारी किए हैं . . . . .	12.00	8.00		नोट (1)—यह शुल्क उस समय लिया जाएगा जब कि किसी मृत भारतीय नागरिक की सम्पत्ति अथवा उस सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि किसी कौंसली अधिकारी को उसकी आधिकारिक हैसियत में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा स्थानीय कानून के अनुसार उक्त सम्पत्ति का अथवा उस की बिक्री से प्राप्त धन राशि का कोई कानूनी रूप से सक्षम दावेदार न हो और यह सम्पत्ति अथवा राशि अनुपस्थित पक्षों में सीधे ही अथवा भारत सरकार के माध्यम से वितरण के लिए कौंसली अधिकारी को सौंपी गई हो।			
61. किसी ऐसे दस्तावेज में कौंसली अधिकारी द्वारा साक्ष्यकित प्रत्येक हस्ताक्षर के लिए जिसके लिए अन्यथा व्यवस्था न की गई हो . . . . .	75.00	50.00		नोट (2)—यह शुल्क उस सम्पत्ति के किसी भाग के मूल्य पर भी लिया जाता चाहिए जो कि कौंसली अधिकारी अपने विवेक से घर भेजे। मामूली सहुना और अन्य वस्तुएं जिनमें जूट-पत्र भी शामिल है और जिनका अनुमानित मूल्य 2000/- रु० से अधिक न हो बिना किसी शुल्क के ही घर भेजी जा सकती हैं लेकिन यदि उनका अनुमानित मूल्य इससे अधिक हो और वह सीके पर शुल्क लिए बिना घर भेज दी गयी हों तो उस के उसके समूचे अनुमानित			
नोट : किसी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जो डाक घर बचत बैंक में पैसा जमा करने अथवा निकालने के संबंध में अथवा बचत बैंक आधिकारियों के मिलसिमे में अपेक्षित हो।							
62. किसी दस्तावेज अथवा दस्तावेज के किसी अंश की प्रति को प्रमाणित करने के लिए यदि वह 100 शब्दों से अधिक न हो . . . . .	45.00	30.00					
63. यदि 100 शब्दों से अधिक हो तो <del>अतिरिक्त</del> अतिरिक्त 100 शब्दों अथवा उनके अंश के लिए . . . . .	15.00	10.00					
नोट : यदि दस्तावेज किसी विदेशी भाषा में हो तो उपर्युक्त शुल्क का दुगुना शुल्क लिया जाएगा जब प्रति कौंसली अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है तो अतिरिक्त शुल्क मद 83 के अनुसार लिया जाता है।							

1	2	3	4	1	2	3	4
<p>मूल्य पर 2½ प्रतिशत का शुल्क भवश्यक लिया जाये।</p> <p>नोट (3)—इस शुल्क में पत्रव्यवहार रसीदों पर हस्ताक्षर ऋणों का भुगतान और प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए तथा उन पक्षों की सम्पत्ति का वितरण करने के लिए जो कानूनी तौर पर इसके हकदार हैं अथवा भारत सरकार को हस्तांतरित करने से संबंधित प्रारम्भिक कार्य ; जैसी भी स्थिति हो इसमें शामिल है। यदि मृत भारतीय की सम्पत्ति के प्रबंध अथवा वितरण के लिए किसी कौंसली अधिकारी के लिए कोई अन्य सेवा आवश्यक हो जिसके लिए विशेष शुल्क की इसमें व्यवस्था की गई हो तो ऐसी सेवा के लिए शुल्क लिया जाना चाहिए।</p> <p>नोट (4)—जब किसी भारतीय की मृत्यु के मामले में रिश्तेदारों के न होने के कारण किसी कौंसली अधिकारी को भेजा जाता है और रिश्तेदारों के अथवा अन्य व्यक्तियों के पहुंचने तक जो इसका भार संभालने में समर्थ हो सकते हैं अथवा ऐसे व्यक्तियों से प्रभावित मिलने तक यदि वह मृतक की सम्पत्ति की अस्थायी तौर पर केवल परिरक्षा की व्यवस्था करता है तो 2½ प्रतिशत का यह शुल्क नहीं लिया जाएगा लेकिन कौंसली अधिकारी की मोहर लगाने तथा मृतक के घर पर उसकी उपस्थिति के लिए शुल्क लिया जाएगा।</p> <p>नोट (5)—किसी भी अधीनस्थ कौंसली केन्द्र पर संभाली गई सम्पत्ति से संबंधित कोई भी धन अथवा वस्तुओं को अधीक्षण कौंसलावास में भिजवा देना चाहिए।</p>				<p>शुल्क से भ्रमण होगा जो इस काम पर भ्रमा हो . . . . . 75.00 50.00</p> <p>70. किसी अन्य ऐसे दस्तावेज पर यदि अपेक्षित हो तो कौंसली अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर लगाने के लिए जिसे अग्र्यक्त अनुसूची में न रखा गया हो . . . . . 75.00 50.00</p> <p>टिप्पणी: ऐसे किसी भ्रादेश अथवा पत्र के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जिसके द्वारा नाविक को अस्पताल भेजा जा रहा है।</p> <p>71. यात्रिका की तामील कराने अथवा उसके लिए प्रयत्न करने के लिए—</p> <p>व्यक्ति के नाम तामील होना हो उसके स्थान पर एक बार जाने के लिए 190.00 125.00</p> <p>परवर्ती प्रत्येक यात्रा के लिए . . . 105.00 70.00</p> <p>72. प्रत्येक, पैकेट अथवा वस्तु पर प्रत्येक कौंसली अधिकारी की मोहर लगाने के लिए जब किसी प्रकार के हस्ताक्षर की आवश्यकता न हो . . . . . 24.00 16.00</p> <p>भाग III—कौंसली अधिकारियों द्वारा कतिपय उपस्थिति के लिए शुल्क</p> <p>नोट : सामान्यतया कोई कौंसली अधिकारी केवल सम्बद्ध पक्षों से अथवा स्थानीय प्राधिकारियों से अनुरोध प्राप्त होने पर ही कार्यालय से बाहर उपस्थित होंगे। लेकिन ऐसी उपस्थिति कौंसली अधिकारी की इच्छा पर निर्भर होगी बशर्ते उसकी अनुपस्थिति से सरकारी कार्यालय में बाधा न पड़ती हो। पौतभंग होने की स्थिति में अथवा मूसीबत के समय जहाज की सहायता करने के उद्देश्य से कौंसली अधिकारी को किसी विशेष अनुरोध की प्रतीक्षा किये बिना उपस्थिति होना चाहिए। क्योंकि लोगों की जान बचाने के लिये किये गये प्रत्येक संभव उपायों में उनकी उपस्थिति सहायक हो सकती है, और ऐसे अवसरों पर मध 73 और 74 में बताया गया शुल्क नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जब तक विशेष रूप से अनुरोध न किया जाये तब तक वे किसी अन्य उद्देश्य के लिए वहां नहीं ठहरेगा। कार्यालय के बाहर से कौंसली अधिकारियों के उपस्थित होने की स्थिति, जो केवल बहुत ही विशेष मामलों में अथवा पाठियों के अनुरोध पर ही होगा, कनिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति के लिए शुल्क इस अनुसूची में निर्धारित राशि से आधा होगा क्योंकि उन्हें लिपिक की हैमियन से अपने वरिष्ठ के साथ सहायक के रूप में समझा जाएगा।</p>			
<p>67. कौंसली अधिकारी के निवास के देश में किसी ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति जो न तो भारतीय नागरिक हो न ही नाविक हो तथा बिना बसीयत किए मर गया हो अथवा उक्त मृतक ने अग्रर बसीयत की भी हो तो, के कानूनी रूप से सक्षम प्रतिनिधियों के अभाव में जब कि भारत में उसके उत्तराधिकारी आंशिक या पूर्ण रूप से यह सम्पत्ति लेना चाहते हों के बारे में मध 66 में उल्लिखित कार्यों के समान कार्य करने के लिए . . . . . अनुमानित मूल्य का 2½ प्रतिशत</p>							
<p>68. दस्तावेजों को मिला कर एक करने तथा उन पर कौंसली अधिकारी की मोहर लगाने के लिए . . . . . 18.00 12.00</p>							
<p>69. पब्लिक रिकार्ड आफिस अथवा कहीं अन्यत्र से स्थानीय रजिस्ट्रों से उद्धरण लेने अथवा बसीयत विवेक अथवा अन्य चीजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए अथवा तलाश के लिए, जो इस खर्च से और साक्ष्यार्थ के</p>							

	2	3	4	1	2	3	4
यदि एक सह-कौंसली अधिकारी अकेले ही गये हैं तो उसका शुल्क कौंसली अधिकारी की तरह ही होगा। सम्बद्ध स्थान के प्रयागत कार्य घंटों के दौरान कौंसली अधिकारियों के द्वारा निजी निवास स्थानों पर किये किसी काम को शुल्क लेने के लिए प्राधिकृत नहीं माना जाएगा।							
73. पोट भंग होने अथवा मुसीबत के समय पोट की सहायता करने के उद्देश्य से, प्रतिदिन		600.00	400.00				
74. सम्बद्ध पक्षों से अनुरोध पर, पोट भंग होने पर, बचाव के रूप में सहायता अथवा परामर्श के लिए, प्रति दिन		825.00	550.00				
75. सम्बद्ध पक्षों के अथवा स्थानीय प्राधिकारियों के अनुरोध करने पर, मृतक व्यक्ति की सम्पत्ति पर मोहर लगाने अथवा हटाने पर, यदि वो घंटे से कम अनुपस्थित हों		300.00	200.00				
वही, वही, प्रत्येक अतिरिक्त घंटे अथवा उसके बाद उसके भाग के लिए 150/- रुपये सहित "क" वर्ग के देशों में और 100/- रुपये सहित "ख" वर्ग के देशों में और एक दिन के लिए अधिकतम		1200.00	800.00				
76. मृत्योक्त के लिए सम्बद्ध दलों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों के अनुरोध करने पर यदि दो घंटे से कम अनुपस्थित हो तो		300.00	200.00				
वही, वही प्रत्येक अतिरिक्त घंटे अथवा उसके बाद उसके भाग के लिए 150 रुपये सहित "क" वर्ग के देशों में और 100 रुपये सहित "ख" वर्ग के देशों में और एक दिन के लिए अधिकतम		1200.00	800.00				
77. सम्बद्ध पक्षों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों के अनुरोध पर बिक्री से सम्बद्ध मामलों में यदि दो घंटे से कम अनुपस्थित हों		600.00	400.00				
वही, वही, प्रत्येक अतिरिक्त घंटे अथवा उसके बाद उस के किसी भाग के लिए 150 रुपये श्रेणी "क" के देशों में, और 100 रुपये श्रेणी "ख" के देशों में, अधिकतम प्रतिदिन		1200.00	800.00				
78. सम्बद्ध पक्षों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों के अनुरोध पर, कौंसली कार्यालय से अत्यन्त कहीं भी किसी भी कार्य के लिए, जिसके लिए शुल्क लगाया जा सकता है, इस प्रकार के शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक घंटे के लिए अथवा उसके बाद उसके किसी भाग के लिए 150 रुपये श्रेणी "क" के देशों में और 100 रुपये श्रेणी "ख" के देशों में प्रतिदिन के लिए अधिकतम		1200.00	800.00				
79. सम्बद्ध पक्षों के किसी भी प्रकार के कार्य का अनुरोध करने पर, जिसके लिए कौंसली कार्यालय अथवा कौंसली निवास स्थान पर शुल्क लगाया जा सकता है, इस प्रकार के शुल्क के अतिरिक्त, प्रत्येक घंटे अथवा उसके बाद उसके किसी भाग के लिए, यदि दिन के समय हो तो, अर्थात् प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक, लेकिन उक्त स्थान के प्रयागत कार्य घंटों के दौरान नहीं						75.00	50.00
नोट—यह शुल्क रविवार को किसी भी प्रकार की उपस्थिति के लिए लगाया जा सकता है।							
भाग-4 कतिपय अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में लिया जाने वाला शुल्क जो कौंसली अधिकारी अपने विवेक से करेंगे।							
80. किये गये किसी भी ऐसे कार्य के लिए, जिसके लिए इस अनुसूची के अन्तर्गत शुल्क लिया जाता है, चाहे वह कौंसली कार्यालय पर किया गया हो अथवा कौंसली अधिकारी के निवास स्थान पर, इस प्रकार के शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक घंटे, अथवा रात के समय अर्थात् रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच उसके किसी भाग के लिए						150.00	100.00
81. घोषणा अथवा अन्य प्रलेख अथवा विरोध पत्र लिखने के लिए अथवा कौंसली अधिकारी के सामने किसी व्यक्ति द्वारा की गई मौखिक घोषणाएं अथवा बयान लिखने के लिए अथवा यदि 50 शब्दों से अधिक न हो तो सचिदाकारी पक्षों द्वारा उसके सम्मुख किये गए कारतारों को लेखबद्ध करने के लिए इसमें मर्यापन आदि का शुल्क शामिल नहीं है						45.00	30.00
यदि 50 शब्दों से अधिक हो तो, उसके बाद प्रत्येक 50 शब्दों, अथवा उसके भाग के लिए						18.00	12.00
82. याचिकाएं, आवेदनपत्रों अथवा अन्य दस्तावेजों, जिनका उल्लेख नहीं किया गया है, को लिखने में सहायता देने के लिए, इस प्रकार की प्रत्येक याचिका आवेदन पत्र अथवा दस्तावेज के लिए						75.00	50.00
83. दस्तावेज की प्रति बनाने अथवा सत्यापन के लिए, यदि 100 शब्दों से अधिक न हो तो, प्रमाणपत्र के शुल्क को छोड़कर						24.00	16.00
यदि 100 शब्दों से अधिक हो तो, बाद के प्रत्येक 100 शब्दों अथवा उसके भाग के लिए						18.00	12.00
84. किसी दस्तावेज का अनुवाद करने अथवा मर्यापित करने के लिए, प्रमाणपत्र के शुल्क को छोड़कर, प्रत्येक 100 शब्दों अथवा उसके भाग के लिए						75.00	50.00

1	2	3	4	1	2	3	4
85.	दस्तावेज का चीनी अथवा जापानी भाषा में अनुवाद अथवा उसके सत्यापन के लिए, पहले 100 लिपि चिह्नों के लिए . . . . .	480.00	320.00		देशों में 150 रु० और श्रेणी 'ख' के देशों में 100 रु० प्रति घंटे या उसके कुछ भाग के लिए और प्रतिदिन अधिकतम . . . . .	1200.00	800.00
	वही बात के प्रत्येक 100 लिपि चिह्नों अथवा उसके भाग के लिए . . . . .	150.00	100.00		नोट : (1) यह शुल्क तब लिया जायेगा जब छोटे हुए सामान की वापसी लेने के लिए या इसी प्रकार के कारणों के लिए कौंसली अधिकारी से अनुरोध किया गया हो। यह वाणिज्यिक पूछताछ के बारे में नहीं लगाया जायेगा। नोट : (2) विवेक पर अधारित जिन कार्यों के लिए शुल्क लिया जा सकता हो, ऐसे कार्य पूर्णतः सम्बद्ध पक्षों के जोखिम और जिम्मेवारी पर और उन पक्षों के द्वारा समुचित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए बिना नहीं किये जायेंगे।		
86.	मौखिक अनुवाद और व्याख्या के लिए, प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके किसी भाग के लिए "क" वर्ग के देशों में 45 रुपये और "ख" वर्ग के देशों में 30 रुपये प्रति घंटे, अधिकतम . . . . .	150.00	100.00		व्याख्या : इस अनुमूची के उद्देश्य के लिए (1) श्रेणी 'क' के देशों से अभिप्रेत होगा— (क) उत्तरी एवं दक्षिणी अमरीका के सभी देश ; (ख) यूरोप के सभी देश, जिसमें सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ भी शामिल है ; (ग) पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के सभी देश, यमन जनतांत्रिक लोक गणराज्य, यमन अरब गणराज्य, सूडान एवं सोमालिया को छोड़कर ; (घ) आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, हांगकांग, और सिंगापुर ; और (ङ) श्रेणी 'ख' के देशों से अभिप्रेत होगा— श्रेणी 'क' के देशों से हटकर सभी देश ।"		
	नोट : (1) यह शुल्क सब 84 और 85 में बताया गया शुल्क और यह शुल्क साथ-साथ नहीं लगाया जाएगा। नोट : (2) यह शुल्क तब नहीं लगाया जाएगा जब व्याख्या केवल कौंसली अधिकारी के सरकारी कार्य, उदाहरणतः झगड़ों का निपटान, करने के लिए की जाएगी।						
87.	वसीयतनामा लिखने के लिए, यदि 200 शब्दों से अधिक न हो तो . . . . .	300.00	200.00				
	यदि 200 शब्दों से अधिक हो तो बाद के प्रत्येक 100 शब्दों अथवा उसके भाग के लिए . . . . .	75.00	50.00				
88.	सूखतारनामा लिखने के लिए, यदि 200 शब्दों से अधिक न हो तो . . . . .	150.00	100.00				
	यदि 200 शब्दों से अधिक हो तो, बाद के प्रत्येक 100 शब्दों अथवा उसके भाग के लिए . . . . .	75.00	50.00				
89.	उन मामलों में जहाँ कौंसली अधिकारी के अतिरिक्त एक अथवा अधिक साक्ष्यात्मककर्मी गवाहों की जरूरत हो, सम्बद्ध पक्षों के अनुरोध करने पर ऐसे प्रत्येक गवाह के लिए . . . . .	30.00	20.00				
	नोट :—कौंसली अधिकारी के सामने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के दृष्टिकोण व्यक्तियों के लिए वह गवाहों की व्यवस्था करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर कौंसली अधिकारी पाठियों के अनुरोध पर गवाह प्रस्तुत करेंगे तो ऐसे प्रत्येक गवाह के लिए शुल्क लिया जाएगा लेकिन उस के प्रत्येक हस्ताक्षर के लिए नहीं।						
90.	गैर सरकारी व्यक्तियों के अनुरोध पर और उनकी ओर से कार्य के लिए, जिसकी कौंसली अधिकारी को अनुमति तो है परन्तु कौंसली अनुदेशों के अन्तर्गत इसके लिए बाध्य नहीं, कौंसली कार्यालय से हटकर किसी अन्य स्थान पर उपस्थित के लिए ; श्रेणी 'क' के						

[सं० टी० 4330(4)/78]

के० डी० जर्मा, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 1978

G.S.R. 326(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 read with clause (a) of sub-section (2) of section 8 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Diplomatic and Consular Officers (Fees) Rules, 1949, namely :—

1. (1) These rules may be called the Diplomatic and Consular Officers (Fees) Amendment Rules, 1979.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Diplomatic and Consular Officers (Fees) Rules 1949, for the existing Schedule—1. the following Schedule shall be substituted, namely :—



## "SCHEDULE 1

(see rule 3)

## Table of consular fees

Matters in respect of which a fee is leviable	Amount of fee	
	Category "A"	Category "B"
	Countries	Countries
(1)	(2)	(3)
	Rs.	Rs.
<b>Part I—Fees to be taken in respect of merchant shipping.</b>		
1. For every declaration taken or recorded under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), with a view to the registry, transfer and transmission of ships, interests in ships, or mortgages on ships . . . . .	105.00	70.00
2. For endorsing a memorandum of change of master upon the certificate or of registry, and initialling his signature on agreement with crew, if required . . . . .	60.00	40.00
3. For granting a provisional certificate of registry (this fee to be exclusive of fees on declaration) . . . . .	390.00	260.00
4. For recording a mortgage of ship or shares in a ship . . . . .	390.00	260.00
5. For recording the transfer of a mortgage of a ship or shares in ship . . . . .	390.00	260.00
6. For recording the discharge of a mortgage of a ship or shares in ship . . . . .	390.00	260.00
7. For every sale of a ship or shares in a ship made before a consular officer . . . . .	390.00	260.00
8. For certified copy of extract from register book of transactions in ships, if not exceeding 100 words . . . . .	45.00	30.00
For every subsequent 100 words . . . . .	24.00	16.00
9. For every seaman engaged before a consular officer . . . . .	30.00	20.00
10. For every alteration in agreements with seamen made before a consular officer . . . . .	30.00	20.00
11. For every seaman discharged or left behind with the sanction of a consular officer . . . . .	30.00	20.00
12. For every desertion certified by a consular officer . . . . .	30.00	20.00
13. For receiving a return of the birth or death of any person on board a ship, and for endorsing the ships' agreement with respect thereto . . . . .	30.00	20.00
14. For attesting the execution of a seaman's will . . . . .	30.00	20.00
15. For certification of form of claim for wages, etc. of a deceased seaman . . . . .	15.00	10.00

	(1)	(2)	(3)
		Rs.	Rs.
16. For examination of provisions or water to be paid by the party who proves to be in default in addition to costs of survey . . . . .		180.00	120.00
17. For every salvage bond made in pursuance of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) to be paid by the master or owner of the property salvaged . . . . .		600.00	400.00
18. For custody of ship's papers, making endorsement thereon and giving the certificate required by the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) including the fee for inspection of ship's papers . . . . .		45.00	30.00
19. For noting a marine protest and furnishing one certified copy if required . . . . .		105.00	70.00
For every other copy . . . . .		45.00	30.00
20. For filing a request for survey and issuing order of survey. . . . .		180.00	120.00
21. For receiving report of survey, filing original in archives (if not exceeding 200 words) and furnishing, if required, one certified copy of request, order and report of survey . . . . .		390.00	260.00
22. For ordinary periodical survey of a cargo or passenger vessel—			
(a) Cargo vessel not exceeding 5,000 net register tons, per net register ton . . . . .		5.00	3.00
Ditto exceeding 5,000 net register tons, for every 1,000 tons or part thereof above 5,000 tons, in addition to the above amount . . . . .		945.00	630.00
(b) Passenger vessel not exceeding 5,000 gross register tons, per gross register ton . . . . .		5.00	3.00
Ditto exceeding 5,000 gross register tons, for every 1,000 tons or part thereof above 5,000 tons, in addition to above amount . . . . .		945.00	630.00
Note (1) The amount of the fee leviable under clause (a) or clause (b) shall not exceed Rs. 18,900 in category "A" and Rs. 10,600 in category "B" Countries			
Note (2) For special survey of a cargo or passenger vessel, the fee chargeable shall be in accordance with the nature and extent of services rendered.			
Note (3) The above fees include the granting or renewal of a certificate of sea worthiness or a passenger certificate, but do not include overtime charges or travelling expenses.			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
23. For extending Marine protests, if not exceeding 200 words, filing original, and furnishing one certified copy, if required exclusive of fees for oaths or declarations, or for drawing, if required, the body of protest . . .	390.00	260.00	36. Drawing up, in form and language required by local authorities, a musterroll or detailed list, giving the names, etc. of each member of the crew of a vessel . . . . .	45.00	30.00
24. For any other protest (except bill of exchange) if not exceeding 200 words, filing original, and furnishing one certified copy, if required. This is to be exclusive of fee for drawing, if required, the body of the protest . . .	390.00	260.00	37. For affixing consular signature and seal, if required to a ship's manifest . . . . .	105.00	70.00
25. If the protest or report of survey exceeds 200 words, for every additional 100 words, or fraction thereof . . .	45.00	30.00	38. For affixing consular seal or signature to any entry in the official log-book of an Indian vessel if such entry is not required by the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) . . . . .	75.00	50.00
26. For attesting average, bottomry or arbitration bond, each copy . . . . .	105.00	70.00	39. For attesting the execution of a bill of sale of a ship or shares in ship . . . . .	105.00	70.00
27. For preparing a fresh agreement with the crew of an Indian vessel on new Articles of Agreement being opened at a foreign port, and for furnishing the copy which, the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) requires, should be made accessible to the crew—  Rs. 10/- for each seaman, with a minimum of Rs. 150/- in category 'A' Countries and Rs. 7/- for each seaman with a minimum of Rs. 105/- in category 'B' Countries and a maximum of . . . . .	390.00	260.00	40. For any document required from a consular officer by foreign authorities as a preliminary to the engagement of a seaman in a foreign vessel, including affixing of official seal and signature . . . . .	30.00	20.00
28. Bill of health . . . . .	150.00	100.00	41. For certifying the engagement or discharge of, or the leaving behind of, or for certifying any alteration in the agreement made under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) with a lascar seaman by the Master of a foreign ship, or for certifying the death of, or the desertion of his ship by any such seaman . . . . .	30.00	20.00
29. Certifying to a foreign bill of health . . . . .	150.00	100.00	42. For certifying the transfer of one or more lascars with their agreements, from one foreign ship to another foreign ship, per seaman . . . . .	60.00	40.00
30. Issue or attestation of certificate of origin or other documents in support of consignment of goods, for each separate document and for filing copy . . . . .	45.00	30.00	Note—The fee under this item is inclusive of and not additional to the fee under item 41, and should be divided equally between the two ships concerned, so however that the maximum fee charged to both ships should not exceed Rs. 1500/- in category 'A' Countries and Rs. 1000/- in category 'B' Countries.		
31. For any additional copy, if signed and sealed by the consular officer . . . . .	45.00	30.00	43. For inspecting ship's papers when their production is required to enable a consular officer to perform any specific service on the ship's behalf . . . . .	45.00	30.00
32. Certificate of due landing of goods exported from an Indian port . . . . .	105.00	70.00	Note—This fee is not to be charged in addition to fee under item 18 for custody of ship's papers, etc. unless the agreement has been withdrawn from the consular office in the interval.		
33. For application addressed to local authorities for arrest or imprisonment of a seaman, if granted pursuant to the request of the Master :—  For each seaman, if more than one is concerned . . . . .	24.00	16.00	Part II—Fees to be taken in respect of other services required to be rendered by a consular officer.		
34. Ditto, for release of a seaman :—  For each seaman, if more than one is concerned . . . . .	75.00	50.00	44. For granting certificate not otherwise provided for, if not exceeding 100 words, exclusive of fee for drawing . . . . .	105.00	70.00
35. For each certificate granted as to the number of the crew of a vessel, or as to any other matter required by the local authorities for the clearance inwards and outwards of a vessel . . . . .	105.00	70.00			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
If exceeding 100 words, for every additional 100 words or fraction thereof . . . . .	45.00	30.00	yearly finger prints ; in such cases the word 'Gratis' shall be written near the consular officer's signature.		
45. For receiving a declaration claiming exemption from or refund of, income tax on shares, etc. . . . .	24.00	16.00	55. For affixing consular officer's signature to any other declaration of existence, if drawn up by a consular officer . . . . .	45.00	30.00
46. For each signature of a consular officer affixing to an exhibit referred to in an affidavit or declaration . . . . .	24.00	16.00	56. For certificate of a person's identity . . . . .	75.00	50.00
47. For each alteration or interlineation initialled by a consular officer in any document not prepared by him . . . . .	5.00	3.00	Note—If the applicant is not personally known to the consular officer, he may require satisfactory evidence of identity, and refuse to give the certificate unless such evidence is produced, since the onus of proof rests with the applicant.		
48. For each signature to a transfer of shares or stock attested by a consular officer . . . . .	45.00	30.00	57. For issuing any document required by a foreign authority for the grant of a permit for residence . . . . .	24.00	16.00
49. For each signature to a transfer of shares or stock attested by a consular officer when executed in the presence of one or more witnesses besides the consular officer . . . . .	75.00	50.00	58. For attestation of certificate required by a foreign authority for allowing remittance facilities to India . . . . .	5.00	3.00
50. For exhibiting a copy of patent, design or trade mark on notice board and for endorsing a certificate that the patent, design or trade mark has been so exhibited . . . . .	240.00	160.00	59. For attesting the signature of a foreign authority . . . . .	75.00	50.00
51. For each execution of a power of attorney attested by a consular officer . . . . .	75.00	60.00	60. For attesting the signature of two qualified foreign medical practitioners on a medical certificate issued by them in the form prescribed in rule 256 of the Supplementary Rules . . . . .	12.00	8.00
Note—When more than four persons execute a power of attorney at the same time, a fee of Rs. 300/- only in category "A" Countries and Rs. 200/- only in category "B" Countries is to be charged.			61. For each signature attested by a consular officer in any document not otherwise provided for . . . . .	75.00	50.0
52. For attesting the execution of a will of any person not being an Indian seaman . . . . .	105.00	70.00	Note—No fee is to be charged for attesting a signature to any document required for the deposit or withdrawal of money in or from the Post Office Savings Bank or in connection with Savings Bank annuities . . . . .		
53. For affixing consular officer's signature and seal, if required, to quarterly or monthly declarations for Government pay or pension . . . . .	5.00	5.00	62. For certifying a copy of any document or part of a document, if not exceeding 100 words . . . . .	45.00	30.00
Note—No fee is to be charged for signing papers for the personnel in the Army, the Navy, the Air Force or in the Merchant Shipping service or their widows or heirs and the word 'Gratis' shall be written near the consular officer's signature. The waiving of the fee shall not be extended to persons drawing civil pensions or retired pay.			If exceeding 100 words, for every additional 100 words or fraction thereof . . . . .		
54. For affixing consular officer's signature and seal to any other declaration of existence . . . . .	24.00	16.00	Note—If the document is in any foreign language, double the fee indicated above shall be charged. An additional fee as per item 83 is to be charged when the copy is made by the consular officer.		
Note—No fee shall be charged from Wasikdars for signature and seal on life certificates and half-			63. Opening the will of an Indian subject not being a seaman, including consular signature to minute of proceedings . . . . .	300.00	200.00

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
64. For each affidavit sworn or affirmed before a consular officer . . . . .	45.00	30.00			
65. For Succession Certificate granted under section 382 of the Indian Succession Act, 1925— . . . . .					
(a) in respect of assets whose value does not exceed Rs. 10,000/- . . . . .	90.00	60.00			
(b) in respect of assets exceeding Rs. 10,000/-, for each Rs. 10,000/- or part thereof . . . . .	75.00	50.00			
66. For the administration or distribution, or both of the property situated in the country of the consular officer's residence, of an Indian subject, not being a seaman, dying intestate, or if not intestate, when undertaken in the absence of legally competent representatives of the deceased . . . . .	2½% on the estimated value.				
Note (1)—This fee is to be charged whenever the property or the proceeds of the property of a deceased Indian subject are handed over to a consular officer in his official capacity, either by the local authorities or by other persons, owing to their being no person legally competent according to the <i>lex loci</i> to claim such property or proceeds which are consequently delivered to the consular officer for distribution to the absent parties, either direct or through the Government of India.			duties incidental to acting as administrator, and to distribution of the property to the parties legally entitled to it, or to its transmission to the Government of India, as the case may be. If in the administration or distribution of the property of a deceased Indian subject it is necessary for the consular officer to perform any other service for which a special fee is provided herein, the fee or fees for such service should also be charged.		
Note (2)—The fee should also be charged on a valuation of any portion of the property which a consular officer may, in the exercise of his discretion, remit home. Trinkets and other articles, including securities, not exceeding the estimated value of Rs. 2000/- may be remitted home without charging any fee; if it exceeds that estimated value, and remitted home without realisation on the spot, the fee of 2½% must be charged on the whole of the estimated value.			Note (4)—When, in the case of the death of an Indian subject, a consular officer is sent for owing to the absence of relatives, and he only makes arrangements for the temporary custody of the property of the deceased, pending the arrival of relatives or other persons who may be competent to take charge of it, or of instructions from such persons, no charge of the fee of 2½ per cent shall be made, but the fee for affixing the consular officer's seal and the fees for his attendance at the house of the deceased shall be chargeable.		
Note (3)—The fee covers the services for correspondence, signing of receipts, payment of debts, and the ordinary			Note (5)—Any money or articles belonging to the estate taken charge of at a subordinate consular post should be sent to the Superintending Consulate.		
			67. For performing functions similar to those specified in item 66 in respect of the property situated in the Country of the consular officer's residence of a person, not being an Indian subject, nor a seaman dying intestate or, if not intestate, in the absence of legally competent representatives of the deceased, when heirs in India are partly or wholly interested in such property . . . . .	2½% on the estimated value.	
			68. For uniting documents and affixing consular officer's seal to the fastening . . . . .	18.00	12.00

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
69. For directing search for, or obtaining from Public Record Office or elsewhere, extracts from local registers, or copies of wills, deeds or other matters, in addition to expenses incurred and any fees for attestation . . .	75.00	50.00	Attendance at the consular officer's private residence, during the customary business hours of the place, is not to be considered as authorising the charge of fees.		
70. For affixing consular officer's signature and seal, if required, to any document not otherwise provided for in this Schedule . . .	75.00	50.00	73. At a ship-wreck or for the purpose of assisting a ship in distress, per day .	600.00	400.00
Note—No fee shall be charged for an order or letter sending a seaman to hospital.			74. At a ship-wreck, at the request of parties interested, to assist or advice as to salvage, per day . . .	825.00	550.00
71. For effecting or endeavouring to effect service of a writ— for one visit to the address of the person to be served . . .	190.00	125.00	75. At the request of parties interested, or of local authorities, at the affixing or removing of seals on property of deceased person, if absent for less than two hours . . .	300.00	200.00
for each additional visit required . . .	105.00	70.00	Ditto, ditto, for each additional hour or fraction thereof at Rs. 150/- in category "A" Countries and Rs. 100/- in category "B" Countries with a maximum per day of . . .	1200.00	800.00
72. For each consular officer's seal affixed to a document, packet, or article, when no signature is required. . .	24.00	16.00	76. At the request of parties interested, or of local authorities at a valuation if absent for less than two hours . . .	300.00	200.00
Part III—Fees for certain attendance by consular officers.			Ditto, ditto, for each additional hour or fraction thereof at Rs. 150/- in category "A" Countries and Rs. 100/- in category "B" Countries, with a maximum per day of . . .	1200.00	800.00
Note—As a general rule, a consular officer is to attend out of Office only on the application of the parties concerned, or of the local authority, and such attendance is to be at the discretion of the consular officer and provided his official duties admit of his absence. In the case of ship-wreck, or for the purpose of assisting a ship in distress the consular officer should attend without waiting for any special request, as his presence may conduce to every possible measure being taken for saving life, and on such occasion, fees indicated in items 73 and 74 are not leviable, but his attendance should not be continued for any other purpose unless it is specially requested.			77. At the request of parties interested, or local authorities at a sale if absent for less than two hours . . .	600.00	400.00
In the event of two consular officers attending out of office, which should only occur in very special cases, or at the request of the parties, the fee for the attendance of the junior is to be half of the amount fixed in this Schedule, as he is to be looked upon as accompanying his senior in the capacity of a clerk. A proconsular officer attending alone is a consular officer for the purpose of fees.			Ditto, ditto, for each additional hour or fraction thereof at Rs. 150/- in category "A" Countries and Rs. 100/- in category "B" Countries with a maximum per day of . . .	1200.00	800.00
			78. At the request of parties interested, or of local authorities, for the transaction, elsewhere than at the consular office, of any duty for which a fee is leviable, in addition to such a fee for each hour, or fraction thereof at Rs. 150/- in category "A" Countries and Rs. 100/- in category "B" Countries with a maximum per day of . . .	1200.00	800.00
			79. At the request of parties interested for the transaction of any duty for which a fee is leviable whether at the consular office or at the consular officer's residence, in addition to such fee, for each half-hour or fraction thereof, if in the day time, that is to say, between the hours of 6 A.M. and 9 P.M. but not during the customary business hours of the place . . .	75.00	50.00
			Note—This fee is leviable for any attendance on Sundays.		

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
Part IV—Fees to be taken in respect of certain other services which may be rendered by a consular officer at his discretion.			Note (1)—This fee is not to be levied concurrently with fees indicated in items 84 and 85 .		
80. For the transaction of any duty, for which a fee is leviable under this Schedule, whether at the consular office or at the consular officer's residence, in addition to such fee, for each half-hour, or fraction thereof in the night time, that is to say, between the hours of 9 P.M. and 6 A.M. . . . .	150.00	100.00	Note (2)—This fee is not to be levied when the interpreting is carried on solely to enable the consular officer to execute any official duty, e.g., the composing of disputes		
81. For drawing a declaration or other document or the body of a protest, or for taking down in writing verbal declarations or depositions of persons made before a consular officer, or for reducing into writing agreements made before him by contracting parties, exclusive of fees for attestation, etc. if not exceeding 50 words . . . .	45.00	30.00	87. For drawing a will, if not exceeding 200 words . . . . .	300.00	200.00
If exceeding 50 words, for each subsequent 50 words, or fraction thereof . . . . .	18.00	12.00	If exceeding 200 words, for every subsequent 100 words or fraction thereof . . . . .	75.00	50.00
82. For assisting in drawing up petitions, applications, or other documents not specified, for each such petition, application or document . . . . .	75.00	50.00	88. For drawing a power-of-attorney, if not exceeding 200 words . . . . .	150.00	100.00
83. For making or verifying a copy of a document, if not exceeding 100 words, exclusive of fee for certificate . . . . .	24.00	16.00	If exceeding 200 words, for every subsequent 100 words or fraction thereof . . . . .	75.00	50.00
If exceeding 100 words, for every subsequent 100 words or fraction thereof . . . . .	18.00	12.00	89. In cases where one or more attesting witnesses, besides consular officer, are required, for each witness supplied by him at the request of the parties interested . . . . .	30.00	20.00
84. For making or verifying a translation of a document, for every 100 words, or fraction thereof, exclusive of fee for certificate . . . . .	75.00	50.00	Note—A consular officer is not bound to provide witnesses for persons desirous of signing document before him, but should the consular officer at the request of the parties, supply witnesses, fees is to be charged for each witness supplied, but not for each signature of such witness. . . . .		
85. For making or verifying a translation of a document in Chinese or Japanese, for first 100 characters . . . . .	480.00	320.00	90. Attendance elsewhere than at consular office at the request and on behalf of private persons, for the transaction of business which a consular officer is permitted, but is not bound to undertake under the consular instructions, for each hour or fraction thereof at Rs. 150/- in category "A" Countries and Rs. 100/- in category "B" Countries, with a maximum per day of . . . . .	1200.00	800.00
Ditto, for every subsequent 100 characters, or fraction thereof . . . . .	150.00	100.00	Note (1)—This fee is applicable when the attendance of the consular officer is sought for the recovery of lost luggage or for similar reasons. It		
86. Viva voce translating and interpreting for each 15 minutes, or fraction thereof at Rs. 45/- in category "A" Countries and Rs. 30/- in category "B" Countries, with a maximum per hour of . . . . .	150.00	100.00			

(1)	(2)	(3)	Explanation : For the purposes of this Schedule,—
	Rs.	Rs.	
is not to be levied in respect of commercial enquiries.			(i) 'category "A" Countries' mean—
			(a) all Countries in North and South America;
			(b) all Countries in Europe, including Union of Soviet Socialist Republics;
			(c) all Countries in West Asia and North Africa, excluding People's Democratic Republic of Yemen, Yemen Arab Republic, Sudan and Somalia;
			(d) Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong and Singapore; and
Note (2)—The discretionary services for which fees are chargeable, are not to be undertaken except at the sole risk and responsibility of the parties requesting the same on condition of such parties signing the proper declaration			(ii) 'category "B" Countries' mean all Countries, other than category "A" Countries.

[No. T. 4330(4)/78]

K. D. SHARMA, Joint Secy.

